



CELLECOR GADGETS LIMITED

(Formerly Known As Unitel Info Limited, Unitel Info Pvt. Ltd.)

Reg. Office : Plot No 12, Block AG Shalimar Bagh, Delhi -110088

CIN. NO. L32300DL2020PLC375196 | Mail ID : accounts@cellecor.in | Landline : 011 43034907, 01145038228

Website: www.cellecor.com

Date: January 21, 2026

The Manager,
Listing department,
National Stock Exchange of India Limited
'Exchange Plaza', C- 1 Block G, Bandra Kurla
complex, Bandra (East) Mumbai – 400051

Company Symbol: CELLECOR
Company ISIN: INE00MO01025

Respected Sir/Ma'am,

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot and submission of Newspaper Advertisement made in this regard.

Dear Sir/Ma'am,


We are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement relating to the "Notice of Extra-Ordinary General Meeting & E-voting information", as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated January 21, 2026, in compliance with the provisions of Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.


We request you to kindly take the above information on record and oblige.


Thanking you,
Yours faithfully,

For and on behalf of
Cellecor Gadgets Limited

Ravi Agarwal
Managing Director
DIN: 08471502

BLUE HORIZON INVESTMENTS LIMITED									
CORPORATE IDENTITY NO. L9999MH1674PLC127031									
Regd. Office : Ballarpur Paper Mills, P.O. Ballarpur – 442901, Dist. Chandrapur, Maharashtra									
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED ON 31ST DECEMBER, 2025									
S. No.		For the quarter ended			For the nine months ended			Rs. in Lakhs	
		31st December 2025	31st September 2025	31st December 2024	31st December, 2025	31st December, 2024	31st March, 2025	Un-audited	Audited
1	Total Income from Operations	1.52	1.48	1.47	4.53	5.37	7.01		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.27)	(1.52)	(2.05)	(5.72)	(0.66)	(1.34)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.27)	(1.52)	(2.05)	(5.72)	(0.66)	(1.34)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.27)	(0.70)	(2.05)	(4.90)	(0.66)	(1.34)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4.20)	(0.70)	(2.05)	(4.90)	(0.66)	(1.34)		
6	Equity Share Capital	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year						281.34		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
1. Basic:		(2.53)	(1.40)	(4.09)	(9.78)	(1.32)	(2.68)		
2. Diluted:		(2.53)	(1.40)	(4.09)	(9.78)	(1.32)	(2.68)		
Notes:									
a) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 31.12.2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").									
b) The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 20 th January 2026.									
c) The Figures for the quarter ended December 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto third quarter of the relevant FY which were subjected to limited review by the statutory auditors.									
d) Previous year/period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year/period's classification / disclosure.									
									
For and on behalf of the Board of Directors Blue Horizon Investments Limited Nitin Malhotra CEO & Whole Time Director DIN: 00054701									
Place : Gurugram Dated : 20.01.2026									
The financial results are also update on the website of the Company, which can be visited by scanning this QR Code.									

AARTI SURFACTANTS LIMITED													
(CIN: L24100MP2018PLC067037)													
Registered Office: Plot no 57, 58, 60 to 64, 62A, S-3/1, Sector-3, Sagore Village, Pithampur Industrial Area, Dhar, Madhya Pradesh, 454775													
E-mail id: investors@aarti-surfactants.com Website: www.aarti-surfactants.com													
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2025													
(₹ in Lakhs except for per share data)													
Sr. No.	Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		Quarter Ended			Nine Months Ended			Quarter Ended			Nine Months Ended		
		31.12.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	20,778.73	17,916.61	16,278.33	60,285.26	45,703.13	65,908.54	20,778.73	17,916.61	16,278.33	60,285.26	45,703.13	65,908.54
2.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	517.27	226.88	131.66	1,159.94	786.36	2114.74	510.09	219.62	120.75	1,134.08	753.45	2070.21
3.	Exceptional items	-	-	-	-	420.25	420.25	-	-	-	-	-	420.25
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	372.85	162.88	90.66	841.52	515.36	1,499.00	365.67	155.62	79.75	815.66	482.45	1,454.47
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)	366.58	162.88	90.66	835.25	515.36	1,477.95	359.40	155.62	79.75	809.39	482.45	1,433.42
6.	Paid-up Equity Share Capital	847.23	846.58	846.58	847.23	846.58	846.58	847.23	846.58	846.58	847.23	846.58	846.58
7.	Reserve excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous Accounting Year						22,574.14						22,415.90
8.	Securities Premium Account	4,850.01	4,803.23	4,803.23	4,850.01	4,803.23	4,803.23	4,850.01	4,803.23	4,803.23	4,850.01	4,803.23	4,803.23
9.	Net Worth			-		-	23,420.72						23,262.48
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16	1,815.16
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387	10,82,387
12.	Debt Equity Ratio	0.44	0.49	0.54	0.45	0.55	0.48	0.44	0.49	0.54	0.45	0.55	0.48
13.	Earning per share (in ₹)												
(a) Basic		4.40	1.93	1.07	9.94	6.09	17.72	4.32	1.84	0.95	9.64	5.70	17.20
(b) Diluted		4.40	1.92	1.07	9.93	6.09	17.71	4.32	1.84	0.95	9.63	5.70	17.19
14.	Capital Redemption Reserve	472.04	453.94	399.44	472.04	399.44	417.34	472.04	453.94	399.44	472.04	399.44	417.34
15.	Debt Service Coverage Ratio	1.56	1.04	0.93	1.25	1.69	1.32	1.56	1.03	0.92	1.25	1.68	1.32
16.	Interest Service Coverage Ratio	4.02	3.35	2.80	3.65	2.97	4.30	4.01	3.34	2.79	3.65	2.95	4.28
Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly and nine months Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) for the Quarter and Nine months ended December 31, 2025. The full format of Unaudited Quarterly and nine months Financial Results is available on the Company's website at www.aarti-surfactants.com and it can also be accessed through the QR Code given below:-													
													
Date: 19.01.2026 Place: Mumbai													
For and on behalf of Board of Directors For Aarti Surfactants Limited Sd/- Nikhil Parimal Desai CEO & Managing Director DIN: 01606649													

VIKRAM SOLAR LIMITED													
[CIN: L18100WB2005PLC106448]													
Regd office: Biowonder, 11 th Floor, Unit No 1102, 789, Anandapur Main Road, Kolkata 700107, West Bengal, India													
E-mail Id: secretarial@vikramsolar.com , Phone No.: + 91 33 2442 7299/7399, + 91 33 4003 0408/0409													
Website : www.vikramsolar.com													
Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025													
₹ In Millions													
Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended	Quarter Ended	Corresponding quarter ended in the previous year	Corresponding nine month ended	Corresponding nine month ended in the previous year	Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Corresponding quarter ended in the previous year	Corresponding nine month ended	Corresponding nine month ended in the previous year	Year Ended
		31-Dec-25 (Un-audited (Refer note-1))	30-Sep-25 (Un-audited)	31-Dec-24 (Un-audited (Refer note-2))	31-Dec-25 (Un-audited (Refer note-1))	31-Dec-24 (Un-audited (Refer note-2))	31-Mar-25 (Audited)	31-Dec-25 (Un-audited (Refer note-1))	30-Sep-25 (Un-audited)	31-Dec-24 (Un-audited (Refer note-2))	31-Dec-25 (Un-audited (Refer note-1))	31-Dec-24 (Un-audited (Refer note-2))	31-Mar-25 (Audited)
1	Total Income from Operations	11,258.29	11,256.68	10,410.33	33,908.97	22,637.03	34,516.72	11,261.82	11,258.05	10,378.39	33,897.66	22,584.70	34,595.27
2	Net Profit for the period (before tax)	1,411.72	1,837.25	325.09	5,071.91	874.21	2,161.53	1,428.34	1,844.55	295.66	5,079.13	765.08	2,173.63
3	Net Profit for the period (after tax)	964.35	1,282.35	209.20	3,590.84	562.56	1,390.96	981.47	1,284.88	190.20	3,599.99	492.18	1,398.31
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	967.97	1,292.86	207.87	3,591.54	558.98	1,382.10	979.72	1,335.17	187.55	3,647.55	485.31	1,378.81
5	Equity Share Capital	3,623.30	3,617.17	3,165.36	3,623.30	3,165.36	3,165.36	3,623.30	3,617.17	3,165.36	3,623.30	3,165.36	3,165.36
6	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	9,407.09	-	-	-	-	-	9,254.53
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)												
1 Basic :		2.66	3.83	0.66	10.63	1.88	4.59	2.71	3.83	0.70	10.66	1.65	4.61
2 Diluted :		2.66	3.81	0.66	10.60	1.88	4.58	2.70	3.82	0.69	10.62	1.64	4.60
Note:													
1) The figures for the quarter ended and nine months ended 31st December, 2025 have been subjected to a review by the statutory auditors.													
2) The figures for the corresponding quarter ended and nine months ended 31st December, 2024 have not been subjected to a review or audit by the statutory auditors. However, the management has exercised necessary care and due diligence to ensure that the financial results for that period are fairly stated.													
The above is an extract from the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results of the quarter and nine months ended 31st December, 2025 is available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the company's website (www.vikramsolar.com) and the same can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QR Code) provided below.													
													
For and on Behalf of the Board Sd/- Gyanesh Chaudhary Chairman & Managing Director DIN-00060387													
Place : Kolkata Date : 20 th January, 2026													

**The Singareni Collieries Company Limited**
(A Government Company)
Regd. Office: Kothagudem – 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE
Tenders have been published for the following Services/Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telangana.gov.in> or <https://sccdmtn.com>
NIT/Enquiry No. - Description/Subject - Last date and time.
E172500319 - Procurement of Computers systems to Singareni Collieries Educational Society - 02.02.2026 - 17:00 Hrs.
E172500330 - Comprehensive Annual maintenance Contract for 18 Nos. of CANON Plotters for a period of 3 years - 29.01.2026 - 17:00 Hrs.
NIT/Enquiry No. - Description/Subject - Estimated Contract Value - Last date and time.
CRP/CVL/RG-III/TN-61/2025-26, dt. 12.01.2026 - Laying of new drinking water pipe line from RG-II to RG-III Area, Godavarihanki, Peddapalli (Dist), Telangana. State Rs: 7,11,66,300/- 27.01.2026 04.30 PM.
RG-I/CVL/ET-171(48)/2025-26, dt. 10-01-2026 - Providing ceramic tile flooring in place of damaged flooring in C-type Quarters No. (C-25 to 36) and (C-53 to C-66) at sector-II in RG-I Area, GDK - Rs. 33,98,041/- 04.02.20

Continued from previous page...

2) Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs.10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 105/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 17.44times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,80,000 Equity Shares to 50 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
1	3600	818	96.12	29,44,800	93.81	3,600	24:409	1,72,800
2	4800	19	2.23	91,200	2.91	3,600	1:19	3,600
3	6000	3	0.35	18,000	0.57	-	0:1	-
4	7200	6	0.71	43,200	1.38	-	0:1	-
5	8400	5	0.59	42,000	1.34	-	0:1	-
							1:14	
	Total	851	100.00	31,39,200	100.00			3600
								1,80,000

Please Note: 3 lots of 1200 shares to be allotted amongst Sr. No. 3 to 5

3) Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs.10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 105/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 26.71times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 3,60,000 Equity Shares to 100 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
1	9600	941	96.02	90,33,600	93.94	3,600	96 : 941	3,45,600
2	10800	30	3.06	3,24,000	3.37	3,600	3 : 30	10,800
3	12000	5	0.51	60,000	0.62	3,600	1 : 5	3,600
4	19200	2	0.20	38,400	0.40	-	0 : 1	-
5	24000	1	0.10	24,000	0.25	-	0 : 1	-
6	136800	1	0.10	1,36,800	1.42	-	0 : 1	-
	TOTAL	980	100.00	96,16,800	100.00	10,800		360,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on January 19, 2026 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSEBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before January 19, 2026 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on January 20, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before January 20, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on January 21, 2026.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated January 16, 2026 ("Prospectus").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Maashitla Securities Private Limited at www.maashitla.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED

451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034.

Contact Person: Mr. Mukul Agrawal**Tel:** +91 1145121795 **Fax:** N.A.**Email:** ipo@maashitla.com**Investor grievance e-mail:** investor.ipo@maashitla.com**Website:** www.kfintech.com**SEBI Registration No.:** INR000004370**CIN:** U67100DL2010PTC208725**Place:** Mehnsana, Gujarat.**Date:** January 20, 2026**On behalf of Board of Directors****FOR GRE RENEW ENERTECH LIMITED****Sd/-****Mrs. Rohan Jayeshbhai Dhruve,****Company Secretary & Compliance Officer****THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF GABION TECHNOLOGIES INDIA LIMITED.**

Disclaimer: Gre Renew Enertech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad on January 16, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at, the website <https://greindia.com> of the BRLM to the Issue at: www.shareindia.com the website of BSE SME at www.bseindia.com respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 30 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक :- लेखा/म.प्र.वि.अ./2025-26/425 दिनांक :- 13/01/2026

ऑनलाइन निविदा सूचना सं. 30/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में ए ए श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से कुल 06 कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचना, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur](http://urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur) एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal पर देखा जा सकता है।
निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न का संशोधन <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal का अवलोकन करें। **UBN : WAQ2526WSOB00288 To WAQ2526WSOB00292 & WAQ2526WLOB00293**
हल सहायक: 01/25/180088

अधिसूचना अधिवक्ता - दिल्ली

"फार्म संख्या आईएनसी-26"
[कम्पनीज (निगमन) नियमन 2014 के नियम 30 के अनुसारण में]
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए
केन्द्रीय सरकार के समक्ष (आरडी, उत्तरी क्षेत्र पीउ, दिल्ली)
कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा की उप-धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन 2014 के के नियम 30 के उप-नियम (5) के मामलों में
एवं
महाकम प्रोजेक्ट्स इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U68200HR2023PTC112976), जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-018-एलजी, सुशांत लोक-1, सुशांत शांतिनगर आरकेड, गलेरिया डीएलएफ-IV, गुडगांव, गलेरिया डीएलएफ-IV, हरियाणा, इण्डिया, 122009 में स्थित है, के मामलों में
.....याधिकाकर्ता
एतद्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें **10 जनवरी, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मैनेजर ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि मांगी जायेगी, ताकि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"पंजाब राज्य"** में स्थानांतरित कर सके।
कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एनसी-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र अथवा अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों को बताते हुए हलफनामे के साथ अपने आवेदन को **केन्द्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, दिल्ली मंजिल, दोनदवाल अंतर्गत भवन, सीजीओ कामप्लेक्स, नई दिल्ली-110003** पर इस सूचना प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज कर उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी के निम्न वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजी होगी।
एफ-018-एलजी, सुशांत लोक-1, सुशांत शांतिनगर आरकेड, गलेरिया डीएलएफ-IV, गुडगांव, गलेरिया डीएलएफ-IV, हरियाणा, इण्डिया, 122009
महाकम प्रोजेक्ट्स इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उन्को लिए
हस्ता/-
शिव कुमार शर्मा
निदेशक
दिथि : 21.01.2026
स्थान: गुडगांव
DIN: 10918435

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईआई बैंक टावर, बॉम्बे-कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (पूरी), मुंबई-400051.

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईआई एक्स्प्रेस जेबी टॉवर, अहमदाबाद, मुंबई-400059
शाखा कार्यालय: 302, 303, 304, तीसरी मंजिल, एलिवेड कॉर्पोरेट टॉवर 111, टीसी 58वीं, विन्मिडि बिल्डिंग, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
जबकि, अहमदाबाद, प्रतिभुविकरण, वित्तीय आसनों का पुनर्निर्माण और प्रतिभुवित्त प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभुवित्त हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उपायकारकों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।
चूंकि उपायकारकों राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उपायकारकों और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अहमदाबाद नये उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तरीकों पर ले लिया है। विशेष रूप से उपायकारकों और आम जनता को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन-देन आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रचार के अधीन होगा।
उपायकारकों का ध्यान सुरक्षित परिस्थितियों को धुनाने के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र.सं.	उपायकारकों/उप-उपायकारकों(ओं) का नाम/उप-उपायकारकों	संपत्ति का विवरण/ उद्देश्य की तिथि	मूल नोटिस की तिथि/मूल नोटिस (ए)	शाखा का नाम
1	अश्वय दीप (उपायकारकों), श्याम सिंह यादव (उप-उपायकारकों), LHLUC00001378595	संपत्ति का विवरण: वृन्दावन योजना, आवास विकास परिसर, रायवेली रोड, लखनऊ में स्थित प्लॉट संख्या 4C/COM&1A का यह पूरा टुकड़ा और मांग, जिसका क्षेत्रफल 118.48 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमाएं पूर्व में अतिक्रमण भूमि, पश्चिम में 24 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर में उपयुक्त प्लॉट और मकान संख्या 4C/1 से 4C/4, और दक्षिण में वाणिज्यिक प्लॉट संख्या 4C/COM-01B से लगती हैं। कम्पनी की तिथि: 19/01/2026	04-01-2024, रुपये 27,59,095/-	लखनऊ
2	अश्वय दीप (उपायकारकों), श्याम सिंह यादव (उप-उपायकारकों), LHLUC00001521664	संपत्ति का विवरण: वृन्दावन योजना, आवास विकास परिसर, रायवेली रोड, लखनऊ में स्थित प्लॉट संख्या 4C/COM-1A का यह पूरा मांग, जिसका क्षेत्रफल 118.48 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में अतिक्रमण भूमि, पश्चिम में 24 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर में उपयुक्त प्लॉट और मकान संख्या 4C/1 से 4C/4, दक्षिण में वाणिज्यिक प्लॉट संख्या 4C/COM-01B। कम्पनी की तिथि: 19/01/2026	04-01-2024, रुपये 77,31,402/-	लखनऊ

उपरोक्त उपायकारकों/गारंटियों को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अथवा कंक संपत्तियां सूझा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएगी।
दिनांक: 21 जनवरी 2026 स्थान: लखनऊ अधिकृत अधिकारी, आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

सेलेक्टॉर गैजेट्स लिमिटेड

सीआईएन: L32300DL2020PLC375196
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: एजी-12, शांतिनगर बाग, दिल्ली-110088
लैडलाइन: 011-49934764, 011-49934734
वेबसाइट: www.ccelecor.in, ई-मेल आईडी: cs@cccelecor.in

असाधारण आम बैठक की सूचना तथा ई-नोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि समग्र-समग्र पर संशोधित कंपनी (प्रवर्तन और ब्रह्मसंन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 100, और ऐसी अन्य लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी में 20 जनवरी, 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 19 जनवरी, 2026 की असाधारण आम बैठक की सूचना उक्त शेयरधारकों को जिनकी ई-मेल आईडी उनके डिजिटल प्रमाणियों या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स स्कॉटलैंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत हैं, को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है।

वीसी/ओपीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए सेलेक्टॉर गैजेट्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही है:

क्र.सं.	संकल्प का विवरण
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ऋण और निवेश करना
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत किसी निहित व्यक्ति द्वारा किए गए ऋण के संबंध में ऋण और गारंटी देना या प्रतिभुवित्त प्रदान करना
3.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन की सीमा को मंजूरी देना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के माध्यम से अपने सभी शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा ईजीएम नोटिस संचित नोटिस भेजने की सम्मति प्राप्त की है। इस लिए, असाधारण आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियों का कोई प्रेषण नहीं होगा। सदस्यों के मतदान का अधिकार सुचारु, 04 फरवरी, 2026 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर उनके द्वारा धारित इलेक्ट्रॉनिक शेयरों पर परिभाषित किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि है।

कंपनी ने सभी सदस्यों को ई-नोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्कोरिटीज डिजिटल लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई-नोटिंग रविवार, 08 फरवरी, 2026 (सुबह 9.00 बजे) को शुरू होगी और मंगलवार 10 फरवरी, 2026 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी, उसके बाद ई-नोटिंग मौकूबत अक्षम कर दिया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वीसी/ओपीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक आयोजित करने के लिए श्रीमती अनु मल्होत्रा कंपनी सचिव (अनु मल्होत्रा एफ एंसेलिटिएट्स के प्रोप्राइटर) को सदीक्षक ("सदीक्षक") नियुक्त किया है।

असाधारण आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.ccelecor.com और नेशनल सिक्कोरिटीज डिजिटल लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी की शेयर सूचीबद्ध है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

असाधारण आम बैठक के परिणाम अक्षय या कार्यकारी निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा असाधारण आम बैठक की अवधि के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी की शेयर सूचीबद्ध है यानी www.nseindia.com पर सूचित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट यानी www.ccelecor.com और नेशनल सिक्कोरिटीज डिजिटल लिमिटेड की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर सदीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे।

निम्न सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता आरटीए (स्कॉटलैंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के साथ ई-मेल आईडी admin@skylinert.com पर या कंपनी के साथ cs@cccelecor.in पर पंजीकृत करवा लें।

किसी भी पुष्टता के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders पर e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कुले एवं हिते
सेलेक्टॉर गैजेट्स लिमिटेड
हस्ता/-
पुजा त्यागी

दिनांक: 20 जनवरी, 2026

स्थान: दिल्ली

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

केन फिन होमस लिमिटेड
एससीओ-3, प्रथम तल, सेक्टर-14, सोनीपत-131001, फोन: 0130-2235101, मो. 7625079179, ईमेल: sonepal@canfinhomes.com CIN NO. L85110KA1987PLC008699

कल्याण सूचना नियम 8(1) अद्यतन सम्पत्ति के लिए
जबकि, अहमदाबाद नये केन फिन होमस लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसनों का प्रतिभुविकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभुवित्त हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभुवित्त हित (प्रवर्तन) नियमोंवाली 2002 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **04.11.2025** को जारी की थी जिसमें कर्जदार श्रीमती दिव्या अरोड़ा पत्नी निशांत अरोड़ा (उपायकारकों) और श्री निशांत अरोड़ा पुत्र अशोक अरोड़ा (सह-उपायकारकों) और देवेन्द्र पुत्र श्री उदय दास (गारंटर) से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. **11,05,866/-** (एकपने ग्यारह लाख पाँच हजार आठ सौ छियासठ मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक संविदात्मक दाय पर अतिरिक्त अग्रिम ब्याज के साथ, चुकाने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अहमदाबाद नये प्रतिभुवित्त हित (प्रवर्तन) नियमोंवाली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 19 जनवरी 2026 को प्राप्त कर लिया है।
सुरक्षित परिस्थितियों को धुनाने के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के लिए उपायकारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार नही करने हेतु सावधान किया जाता है और संश्लेषियों के संबंध में कोई भी संवेद्यार केन फिन होमस लिमिटेड, की बकाया राशि रु. **11,05,866/-** (एकपने ग्यारह लाख पाँच हजार आठ सौ छियासठ मात्र) और उस पर ब्याज को देय और बकाया के साथ-साथ आने का ब्याज, लागत, व्यय और अन्य शुल्क के प्रभावशील होगा।
अद्यतन सम्पत्ति का विवरण
खसरा नंबर 4360 निम्न काका रकबा पट्टी मुसलमान न्यू ब्रह्म कॉलोनी सोनीपत हरियाणा 131001
चौधुद्वी:
उत्तर : अन्य संपत्ति
पूर्व : गंगा नाला
दक्षिण : अन्य संपत्ति
पश्चिम: गली / सड़क
तिथि: 20.01.2026
स्थान: सोनीपत
हस्ता./-,
प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होमस लिमिटेड

POST-OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF AVISHKAR INFRAREALTY LIMITED
CIN: L65910MH1983PLC031230
Registered Office: Unit No. 301 Nestor Court ADJ to Vinayak Chs Baji, Prabhush Deshpande Marg Pond Gavthan, Vile Parle (West), Mumbai, Maharashtra, India, 400056. Tel. No. +91- 2726080909; E-mail: compliance.joyreality@gmail.com; Website: www.avishkardevelopers.com

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF.
This Post Offer Advertisement is being issued by Kunvarji Fintock Private Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Mr. Niraj Harsukhlal Sanghavi ("Acquirer") and Ms. Nishra Niraj Sanghvi, Ms. Naysha Niraj Sanghvi, and M/s. Kenilworth Consultancy Services LLP ("Persons Acting in Concert" or "PAC") in connection with the Open Offer made by the Acquirer to acquire 58,24,853 (Fifty-Eight Lakhs Twenty-Four Thousand Eight Hundred and Fifty-Three) Equity Shares having a Face Value of ₹10.00/- each ("Equity Shares") of the Target Company at ₹16.20/- per Equity Share, representing 26.00% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18(12) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was made on September 12, 2025, in The Financial Express - English edition, Jansatta - Hindi Edition and Pratahal - Marathi edition.

1. Name of the Target Company	: Avishkar Infra Realty Limited
2. Name of the Acquirer and PAC	: Mr. Niraj Harsukhlal Sanghavi ("Acquirer") and Ms. Nishra Niraj Sanghvi, Ms. Naysha Niraj Sanghvi, M/s. Kenilworth Consultancy Services LLP ("PAC")
3. Name of the Manager to the Offer	: Kunvarji Fintock Private Limited
4. Name of the Registrar to the Offer	: Purva Share Registry (India) Private Limited
5. Offer details a.) Date of opening of the Offer b.) Date of closing of the Offer	: December 23, 2025 : January 06, 2026
6. Date of completion of payment of consideration and communication of Rejection/Acceptance	: January 20, 2026

Details of Acquisition:			
Sr.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer	Actuals
1.	Offer Price (in Rs.)	₹ 16.00/- (Rupees Sixteen Only)	₹ 16.20/- (Sixteen Rupees and Twenty Paise Only)
2.	The aggregate number of Shares tendered	58,24,853 Equity Shares	61,320 Equity Shares
3.	The aggregate number of Shares accepted	58,24,853 Equity Shares	61,320 Equity Shares ⁽¹⁾
4.	Size of the offer (the number of Equity Shares multiplied by the Offer Price per Equity Share)	₹ 9,31,97,648/- (Rupees Nine Crore Thirty one Lakh Ninety Seven Thousand Six Hundred Forty Eight Only)	₹ 9,93,384/- (Rupees nine lakh ninety-three thousand three hundred eighty-four only)
5.	Shareholding of the Acquirer and PAC before Public Announcement • Number • % of Equity Share Capital	60,28,645 ⁽²⁾ 26.91%	60,28,645 26.91%
6.	Shares agreed to be acquired by way of a Share Purchase Agreement ("SPA") • Number • % of Equity Share Capital	Not Applicable	Not Applicable
7.	Shareholding of the Acquirer and PAC post-acquisition by way of Open Offer • Number • % of Equity Share Capital	1,18,53,498 52.91%	60,89,965 ⁽³⁾ 27.18%
8.	Shares acquired after Detailed Public Statement ("DPS") • Number • % of Equity Share Capital • Price of the Shares Acquired	Nil Nil Not Applicable	Nil Nil Not Applicable
Detail	Pre & Post offer Shareholding of the Acquirer and PAC group	Pre Offer	